

पुस्तकालय स्वचालन के लिए अनुशंसित चरणों की व्याख्या कीजिए।

4. Explain major challenges of digital library development and creation.

डिजिटल पुस्तकालय विकास एवं निर्माण की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए।

5. Explain modules of SOUL Software.

सोल सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स की व्याख्या कीजिये।

6. Discuss the functions and activities of 'INFLIBNET'.

'इनफ्लिबनेट' के कार्यों एवं गतिविधियों की चर्चा कीजिए।

7. Explain the various types of 'Digital Library Services'.

विभिन्न प्रकार की 'डिजिटल पुस्तकालय सेवाओं' की व्याख्या कीजिए।

8. What is 'Metadata'? Explain the various types of metadata to be used in digital libraries.

'मेटाडेटा' क्या है ? डिजिटल पुस्तकालयों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के मेटाडेटा की व्याख्या कीजिये।

9. Discuss about advantages and disadvantages of digital libraries.

डिजिटल पुस्तकालयों के लाभ एवं हानियों की चर्चा कीजिये।

MLIS-07/4

(4)

T-520

MLIS-07

June – Examination 2022

Master of Library and Information Science Examination

Applications of Information Communication Technology in Libraries

**(पुस्तकालय में सूचना संचार प्रौद्योगिकी
का अनुप्रयोग)**

Paper : MLIS-07

Time : 1½ Hours]

[Maximum Marks : 80

Note :- The question paper is divided into two Sections A and B. Write answers as per the given instructions.

निर्देश :- यह प्रश्न-पत्र 'अ' और 'ब' दो खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Section-A

4×4=16

(Very Short Answer Type Questions)

Note :- Answer any *four* questions. As per the nature of the question delimit your answer in one word, one sentence or maximum up to **30** words. Each question carries 4 marks.

MLIS-07/4

(1)

T-520 Turn Over

खण्ड—अ

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश :- किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को प्रश्नानुसार एक शब्द, एक वाक्य या अधिकतम 30 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है।

1. (i) Mention the areas for use of ICT.
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र बताइये।
- (ii) What is TCP/IP ?
टी.सी.पी./आई.पी. क्या है ?
- (iii) What do you understand by 'Relational Database' ?
'रिलेशनल डेटाबेस' से आपका क्या आशय है ?
- (iv) Write any two names of Open Source Library Automation software.
पुस्तकालय स्वचालन के किन्हीं दो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए।
- (v) What are the components for Digital Library ?
डिजिटल पुस्तकालय के घटक क्या-क्या हैं ?
- (vi) What do you understand by 'Client-Server-Technology' ?
क्लाइंट-सर्वर-प्रौद्योगिकी से आपका क्या आशय है ?

(vii) Write the full form of DOI.

डी.ओ.आई. का पूरा नाम लिखिये।

(viii) Write any two-two names of web browsers and search engines.

वेब ब्राउजर्स एवं सर्च इंजन के कोई दो-दो नाम लिखिये।

Section-B

4×16=64

(Short Answer Type Questions)

Note :- Answer any four questions. Each answer should not exceed 200 words. Each question carries 16 marks.

खण्ड—ब

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश :- किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम 200 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है।

2. What is 'Protocol' ? Describe the important protocols for digital libraries.
'प्रोटोकॉल्स' क्या है ? डिजिटल पुस्तकालय के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल्स का वर्णन कीजिए।
3. Explain steps recommended for library automation.